



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 26 अप्रैल, 2023

बैशाख 6, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस सेवाएं) अनुभाग-1

संख्या 826/छ:-पु0से0-1-2023

ई फाइल संख्या 6-17001(011)/177-2020

लखनऊ, 26 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-15

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली, 2016 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा (द्वितीय संशोधन)

नियमावली, 2023

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली, 2016 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 5 का संशोधन में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5(1)(दो) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

भर्ती का स्रोत :-

5-(1)(दो) पचास प्रतिशत, नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के ऐसे निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और उक्त पद पर स्थायी भी हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

भर्ती का स्रोत :-

5-(1)(दो) पचास प्रतिशत पद, जिनमें 89 प्रतिशत नागरिक पुलिस निरीक्षकों और 11 प्रतिशत सशस्त्र पुलिस कम्पनी कमाण्डरों/प्रतिसार निरीक्षकों के पद सम्मिलित हैं, नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे निरीक्षकों में से

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष हेतु रिक्तियों का दो प्रतिशत भाग सरकार की विशिष्ट संस्तुतियों पर आयोग के माध्यम से बिना पारी पदोन्नति द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के ऐसे पुलिस निरीक्षकों/कम्पनी कमाण्डरों में से भरा जायेगा जिन्होंने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किया हो :-

(क) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात विश्व चैम्पियनशिप में, चाहे किसी दल में या व्यक्ति खेल में, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो;

अथवा

(ख) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त ओलंपिक खेलों में अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो;

अथवा

(ग) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात एशियन खेलों/एशियन चैम्पियनशिप में, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत पदक अवश्य प्राप्त किया हो;

अथवा

(घ) यदि उसने खेलों में देश का सर्वोच्च पुरस्कार या उत्कृष्टता, "अर्जुन पुरस्कार"/"राजीव गाँधी खेल रत्न" अर्जित किया हो। यदि नागरिक पुलिस या सशस्त्र पुलिस का कोई निरीक्षक पदोन्नति के लिए दिये गये मानदण्डों को पूर्ण करता है तो ऐसी दशा में अपनी स्पष्ट संस्तुतियों के साथ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा और राज्य

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और उक्त पद पर स्थायी भी हों, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष हेतु रिक्तियों का दो प्रतिशत भाग सरकार की विशिष्ट संस्तुतियों पर आयोग के माध्यम से बिना पारी पदोन्नति द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के ऐसे पुलिस निरीक्षकों/कम्पनी कमाण्डरों में से भरा जायेगा जिन्होंने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किया हो :-

(क) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात पी0जे0ओ0एम0 चैम्पियनशिप में, चाहे किसी दल में या वैयक्तिक खेल में, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो;

अथवा

(ख) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त ओलंपिक खेलों में अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो;

अथवा

(ग) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात एशियन खेलों/एशियन चैम्पियनशिप/कॉमन वेल्थ गेम एवं कॉमन वेल्थ चैम्पियनशिप में, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण पदक अवश्य प्राप्त किया हो;

अथवा

(घ) यदि उसने खेलों में देश का सर्वोच्च पुरस्कार या उत्कृष्टता, "अर्जुन पुरस्कार"/"राजीव गाँधी खेल रत्न" अर्जित किया हो। यदि नागरिक पुलिस या सशस्त्र पुलिस का कोई निरीक्षक पदोन्नति के लिए दिये गये मानदण्डों को पूर्ण करता है तो ऐसी दशा में अपनी स्पष्ट संस्तुतियों के साथ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा और राज्य

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

सरकार द्वारा आयोग की सहमति से बिना पारी पदोन्नति प्रदान की जायेगी। यदि इस परन्तुक के अधीन बिना पारी पदोन्नति के लिए ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियाँ इस नियमावली में विहित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

3-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर नियम 16 का स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :- प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

साधारण श्रेणी हेतु आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-

16-साधारण श्रेणी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के निरीक्षकों में से विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी उनकी संयुक्त ज्येष्ठता सूची के अनुसार योग्यता के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सरकार द्वारा आयोग की सहमति से बिना पारी पदोन्नति प्रदान की जायेगी। यदि इस परन्तुक के अधीन बिना पारी पदोन्नति के लिए ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियाँ इस नियमावली में विहित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

साधारण श्रेणी हेतु आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-

16-साधारण श्रेणी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त 89 प्रतिशत नागरिक पुलिस निरीक्षकों और 11 प्रतिशत सशस्त्र पुलिस कम्पनी कमाण्डरों/प्रतिसार निरीक्षकों में से विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी उनकी पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची के अनुसार योग्यता के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

तथापि भविष्य में पदों की वृद्धि की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रत्येक तीन वर्ष पर समीक्षा की जायेगी।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 826/VI-P.S.-1-2023, dated April 26, 2023:

No. 826/VI-P.S.-1-2023

E-file no. 6-17001(011)/177-2020

Dated Lucknow, April 26, 2023

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Service Rules, 2016.

**THE UTTAR PRADESH POLICE SERVICE (SECOND AMENDMENT)
RULES, 2023**

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Service (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of
rule 5

2. In the Uttar Pradesh Police Service Rules, 2016, hereinafter referred to as the said rules, in rule *for* existing rule 5(1)(ii) set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I

Existing rule

Source of recruitment :-

5. (1)(ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Inspectors of Civil Police and Armed Police who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and are also confirmed in the said Post:

Provided that two percent of the vacancies for a year of recruitment may be filled by out of turn promotion through the Commission on the specific recommendation of the Government from amongst such Police Inspectors/Company Commanders of Uttar Pradesh Police Force who have achieved the following awards :-

(a) After having been selected to the Indian team should have participated in World Championship, either in a team or individual event, which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place;

Or

COLUMN-II

Rules as hereby substituted

Source of recruitment :-

5. (1)(ii) Fifty percent which includes 89% Inspectors of Civil Police and 11% Company Commander/Reserve Inspector of Armed Police by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Inspectors of Civil Police and Armed Police who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and are also confirmed in the said Post:

Provided that two percent of the vacancies for a year of recruitment may be filled by out of turn promotion through the Commission on the specific recommendation of the Government from amongst such Police Inspectors/Company Commanders of Uttar Pradesh Police Force who have achieved the following awards :-

(a) After having been selected to the Indian team should have participated in PJOM Championship, either in a team or individual event, which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place;

Or

COLUMN-I*Existing rule*

(b) After having been selected to the Indian team should have participated in Olympic Games which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place;

Or

(c) After having been selected to the Indian team should have participated in Asian Games/Asian Championship which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver Medal;

Or

(d) If he/she has earned country's highest award or excellence in sports "Arjuna Award"/"Rajeev Gandhi Khel Ratna". If any Inspector of Civil Police or Armed Police qualifies the criterion laid down for promotion in such case then a proposal would be forwarded to the Government by the Director General of Police, Uttar Pradesh with clear recommendation and the out of turn promotion will be awarded by the State Government with the concurrence of the Commission. If such person or sufficient number of such persons are not available for out of turn promotion under this proviso, the remaining vacancies shall be filled in accordance with the general procedure prescribed in this rule.

COLUMN-II*Rules as hereby substituted*

(b) After having been selected to the Indian team should have participated in Olympic Games which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place;

Or

(c) After having been selected to the Indian team should have participated in Asian Games/Asian Championship/Commonwealth Game and Commonwealth Championship which is recognised by the International Olympic Association and should have earned a Gold Medal;

Or

(d) If he/she has earned country's highest award or excellence in sports "Arjuna Award"/"Rajeev Gandhi Khel Ratna". If any Inspector of Civil Police or Armed Police qualifies the criterion laid down for promotion in such case then a proposal would be forwarded to the Government by the Director General of Police, Uttar Pradesh with clear recommendation and the out of turn promotion will be awarded by the State Government with the concurrence of the Commission. If such person or sufficient number of such persons are not available for out of turn promotion under this proviso, the remaining vacancies shall be filled in accordance with the general procedure prescribed in this rule.

3. In the said rules, for existing rule 16 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

Substitution of
rule 16

COLUMN-I*Existing rule*

Procedure for recruitment by promotion through the Commission to Ordinary Grade :-

16. Recruitment by promotion to the Ordinary Grade shall be made on the basis of merit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service

COLUMN-II*Rules as hereby substituted*

Procedure for recruitment by promotion through the Commission to Ordinary Grade :-

16. Recruitment by promotion to the Ordinary Grade shall be made on the basis of merit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service

<u>COLUMN-I</u>	<u>COLUMN-II</u>
<i>Existing rule</i>	<i>Rules as hereby substituted</i>
Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time, from amongst substantively appointed Inspectors of Civil Police and Armed Police as per their combined seniority list to be prepared by Head of Department.	Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time, from amongst substantively appointed 89% Inspectors of Civil Police and 11% CC/RI Armed Police as per their separate seniority list to be prepared by Head of Department. However, in view of the possibility of increase of posts in future, they will be reviewed every three years.

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.